

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 236 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 25 जून 2019 — आषाढ़ 4, शक 1941

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 25 जून 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-5/2019/16. — छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना नियम, 1959 में संशोधन का निम्नलिखित और प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम, 1958 (क्र. 25 सन् 1958) की धारा 59 की उप-धारा (1) तथा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 59 की उप-धारा (3) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर के कार्यालय में, कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

- नियम 4 एवं 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—
  - पंजीयन प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की कालावधि.— धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीन प्रदान किया गया पंजीयन प्रमाणपत्र, नियोक्ता द्वारा यथा अधिसूचित बंद किये जाने की तारीख तक विधिमान्य रहेगा।
  - पंजीयन प्रमाणपत्र हेतु शुल्क.— धारा 6 की उप-धारा (2) के अधीन जारी प्रत्येक पंजीयन प्रमाणपत्र, स्थापनाओं के उस वर्ग के लिये नीचे विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान पर जारी किया जायेगा—

स. क्र.	स्थापना के वर्ग	पंजीयन/नवीनीकरण शुल्क रुपये में
1.	सभी स्थापनाओं के लिये, जहाँ कोई कर्मचारी नियोजित नहीं हैं	रु. एक सौ
2.	सभी स्थापनाओं के लिये, जहाँ 3 से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं	रु. एक सौ पचास
3.	सभी स्थापनाओं के लिये, जहाँ 3 से अधिक किन्तु 10 से कम कर्मचारी नियोजित हैं	रु. दो सौ
4.	सभी स्थापनाओं के लिये, जहाँ 10 या 10 से अधिक कर्मचारी नियोजित हैं	रु. दो सौ पचास

परन्तु सभी नियोजक, जिन्होंने 25-06-2014 के पूर्व पंजीयन प्राप्त कर लिया है, इन नियमों के संशोधन के पश्चात्, अनिवार्य रूप से पंजीयन प्राप्त करेंगे।”

2. नियम 6 में, परंतुक में, शब्द “पंजीयन या नवीनीकरण” के स्थान पर, शब्द “पंजीकरण” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
पी०डी० पुरबिया, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 25 जून 2019

क्रमांक एफ 10-5/2019/16 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-5/2019/16, दिनांक 25-06-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

Atal Nagar, the 25th June 2019

### NOTIFICATION

No. F 10-5/2019/16 . — The following further draft amendment in the Chhattisgarh Shops and Establishments Rules 1959, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 59 of the Chhattisgarh Shops and Establishments Act, 1958 (No. 25 of 1958), is hereby, published as required under sub-section (3) of Section 59 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of fifteen days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period during office hours, by Office of the Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Labour, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Atal Nagar, Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

### DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

1. For rule 4 and 5, the following shall be substituted, namely:-

"4. Period of validity of Registration Certificate.- The Registration Certificate granted under sub-section (3) of Section 6 shall remain valid till the date of closure as notified by the employer.

5. Fees for Registration Certificate.- Every registration certificate issued under sub-section (2) of Section 6 shall be issued on payment of a fee specified below for that class of establishment-

S.No.	Class of establishment	Registration/Renewal Fees in rupees
1.	All establishments having no employees	Rs. One hundred
2.	All establishments employing not more than 3 employees	Rs. One hundred fifty
3.	All establishments employing more than 3 but less than 10 employees	Rs. Two hundred
4.	All establishments employing 10 or more than 10 employees	Rs. Two hundred fifty

Provided that all the employers who have obtained registration before 25/06/2014 shall compulsorily obtain registration after the amendment of these rules."

2. In rule 6, in proviso, for the words "registration or renewal", the word "registration" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,  
P.D. PURBIYA, Deputy Secretary.